

**કૃષિ કુંભ
હિંದી માસિક પત્રિકા**

**ખણ્ડ 03 ભાગ 10, (માર્ચ, 2024)
પૃષ્ઠ સંખ્યા 77–80**

બુંદેલખણ્ડ મેં પોલીહાઉસ હેતૂ મૃદા સ્વાસ્થ્ય એવં પ્રબન્ધન



ડૉ સંદીપ ઉપાધ્યાય

શિક્ષણ સહ શોધ સહાયક મૃદા વિજ્ઞાન વિભાગ
રાની લક્ષ્મી બાઈ કેન્દ્રીય કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય,
ઝાંસી, ઉત્તર પ્રદેશ, ભારત।

Email Id: mistersandeep@gmail.com

નવીનતમ અનુમાનોं કે અનુસાર વિશ્વ કી જનસંખ્યા લગભગ આઠ અરબ હો ચુકી હૈ તથા ઇસ બઢતી જનસંખ્યા કે ભરણ–પોષણ કે લિએ ધરતી પર કૃષિ યોગ્ય ભૂમિ કી કમી અબ દિખને લગી હૈ। ઇસકે સાથ–સાથ શાહરોં મેં બઢતી આબાદી વ ઔદ્યોગીકરણ ન કેવળ કૃષિ યોગ્ય ભૂમિ પર આઘાત કર રહે હૈને બલ્લિક વાતાવરણ મેં બદલાવ કે ભી મુખ્ય કારણ બન રહે હૈને। કૃષિ કે લિએ ઉપલબ્ધ જલ સ્ત્રોત ભી કમ હો રહે હૈને।

બુંદેલખણ્ડ ક્ષેત્ર મેં કિસાનોં કી સમસ્યા મૌસુમ કા બદલતા મિજાજ હૈ। ખુલ્લી ખેતી મેં જાનવરોં સે ખેતોં કી દેખભાલી કરના મુશ્કિલ હૈ ગર્મી–બરસાત કી સમસ્યા ઊપર સે અલગ કહર ઢા રહી હૈ। ઇન સબ કારકોં કે હોતે હુએ ભી કમ જલ કી લાગત સે અચ્છી ગુણવત્તા તથા અધિક પૈદાવાર કી જરૂરત કો કોઈ ખેતી પૂરા કર સકતી હૈ ઉસ ઉપાય કા નામ "સંરક્ષિત ખેતી યા પોલીહાઉસ વિધિ" હૈ પિછલે કુછ વર્ષો મેં ભારત મેં કેંદ્ર ઔર રાજ્ય સરકારે ઇસ પ્રકાર કી ખેતી કો કાફી પ્રોત્સાહિત કર રહી હૈને। પોલી હાઉસ, ગ્રીન હાઉસ ઔર પ્લાસ્ટિક મલ્લિંગ પર સબિસ્ડી પાને કે લિયે ઉત્તર પ્રદે મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય કે ઉદ્યાનિકી એવં ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ વિભાગ ને ઑનલાઇન આવેદન ભી માંગે હૈને। રાજ્ય સરકારોં ને કિસાનોં કો પોલીહાઉસ, ગ્રીન હાઉસ ઔર પ્લાસ્ટિક મલ્લિંગ મેં ખેતી કરને કે લિયે કુલ લાગત મેં 50 ફીસદી સબિસ્ડી દેને કા ભી નિર્ણય લિયા હૈ। ઐસી મેં સંરક્ષિત ખેતી પોલીહાઉસિંગ કો કરને કે લિએ અનુકૂલ યા ઉપયુક્ત સમય જાન પડતા હૈ જિસસે વિશેષકર બુંદેલખણ્ડ ક્ષેત્ર મેં કિસાનોં કા સંરક્ષિત ખેતી મેં વિકાસશીલ કદમ બઢતે રહેં।

પોલીહાઉસ મેં સબિસ્ડી, મિન્ડી, બૈગન, ગોભી, શિમલામિર્ચ, ટમાટર હોં યા કદદૂવર્ગીય ફસલ જૈસે ખીરે, તુરર્ઝ આદિ કી ખેતી યા ગુલાਬ–જરબૈરા આદિ

કે ફૂલ કોઈ ભી ખેતી વ્યવસાયિક લાભ દેતી હૈ ઉન પર ધૂપ, બારિશ, આંધી, લૂ, સર્દી ઔર કીટ–પતંગે, બીમારી આદિ કા અસર નહીં હોતા હૈ। કિસાન કિસી ભી મૌસુમ મેં પોલી હાઉસ કે અંદર કિસી ભી ફસલ કી ખેતી કર સકતે હૈ ઇસસે પૈદાવાર બઢ જાતી હૈ ઔર કિસાનોં કો અચ્છા મુનાફા હોતા હૈ। સાથ હી સાથ ગ્રાહક કો અચ્છી સબ્જી તથા ત્યૌહારોં કે મૌસુમ મેં અચ્છે તથા સસ્તે ફૂલ ઉપલબ્ધ હોતે હૈને। સંરક્ષિત ખેતી કા સબસે બડા લાભ યહ હૈ કિ ઇસમે વર્ષ ભર લગાતાર ફસલ; જૈસે સબિસ્ડીઓ તથા ફૂલોં કા ઉત્પાદન હો સકતા હૈ।



ચિત્ર (1) પોલીહાઉસ મેં સંરક્ષિત ખેતી



ચિત્ર (2) પોલીહાઉસ મેં કિસાનોં કા સંરક્ષિત ખેતી પ્રશિક્ષણ



चित्र (3) पॉलीहाउस में टमाटर की खेती



चित्र (4) पॉलीहाउस में उत्पादित खीरा



चित्र (5) पॉलीहाउस में उत्पादित बीन्स की सब्जी

पॉलीहाउस में वर्ष भर फसलों की अच्छी पैदावार तथा गुणवत्ता के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की पूर्ति करने के लिए फर्टिगेशन द्वारा घुलनशील खादों का प्रयोग निरन्तर किया जाता है। इस कारण से 3–4 वर्षों में ही पॉलीहाउस की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब भी हो सकती है। अच्छे बीज, उचित पोषक तत्व तथा सभी सावधानियों के बावजूद फसल की पैदावार तथा गुणवत्ता में भारी कमी आ जाती है। चूंकि अभी किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में

जागरूकता न होने के कारण फसल में उत्पादन की गिरावट के सही कारणों का पता नहीं चल पाता है। अतः यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए किसान मिट्टी के स्वास्थ्य की लगातार जाँच करवायें और उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी रखें। मिट्टी की जाँच के लिए सही तरीके से नमूना लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नमूना सही ढंग से नहीं लिया गया तो जाँच के परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। सही ढंग से नमूना लेने के लिए विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। यह नमूना पॉलीहाउस के अंदर से अलग-अलग स्थानों से लिया जाता है। फिर इसे अच्छी तरह मिला कर चार भागों में बाँट दिया जाता है। सामने से एक भाग को हटाते हुए शेष भाग को फिर से उपर्युक्त वर्णित विधि से मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक नमूना आधा किलोग्राम न रह जाये। इस नमूने को छाया में सुखाने के बाद कपड़े की थैली में डालकर अपना नाम, पता तथा कौन सी फसल लगाई थी एवं कौन सी लगानी है इत्यादि के बारे में सूचित करना आवश्यक होता है। इस तरह से प्राप्त किये गए नमूने को जाँच केंद्र में भेज दिया जाता है। जाँच के आधार पर प्राप्त जानकारी के बाद ही खाद एवं उर्वरक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।

6अ



6 स



6ब



6द



चित्र (3 अ ब स द) मिट्टी का विभाजन; नमूना सही विधि से तैयार करना

संरक्षित खेती करते समय ध्यान रखें कि मिट्टी की जाँच समय-समय पर अवश्य करवाते रहें। सबसे पहली जाँच पॉलीहाउस लगाने के बाद तथा फसल

लगाने से पूर्व करवाएँ। इसके बाद जाँच अवधि प्रति दो वर्ष में अवय हो अथवा बीमारी की संभावना/लक्षण दिखते ही प्रत्येक फसल के बाद मिट्टी की जाँच अवय करवानी चाहिए। मिट्टी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त मृदा स्वास्थ्य के विभिन्न परिमाप निम्नलिखित हैं जिनके उचित प्रबन्धन द्वारा पॉलीहाउस में फसल उत्पादन किया जा सकता है।

(1) मिट्टी की बनावट: पॉलीहाउस में सबसे पहले मिट्टी के प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है जो मुख्यतः तीन प्रकार जैसे चिकनी, दोमट तथा रेतीली होती है। संतुलित पोषक तत्वों तथा जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। चिकनी तथा रेतीली मिट्टी में पोषक तत्वों तथा जलधारण क्षमता की कमी रहती है अतः एक वांछनीय मिट्टी के माध्यम में सिंचाई पर चात अच्छी जल धारण क्षमता और सरंध्रता जैसे गुण अवय होना चाहिए। सूखने पर मिट्टी की बनावट के अनुसार ही जल तथा फर्टिगेशन की मात्रा एवं समय निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार गोबर की खाद तथा वर्मीकम्पोस्ट की मात्रा भी निर्धारित होती है।

(2) जैविक पदार्थ: मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा 1.5 से 2.0 प्रतिशत तक लगातार बनाये रखनी चाहिए। इससे कम होने पर मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए गोबर की सड़ी—गली खाद; 4 किग्रा/वर्ग मीटर एवं वर्मीकम्पोस्ट; 2 किग्रा/वर्ग मीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। यह तीनों प्रकार की मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने और उसे भुरभुरा बनाए रखने में मदद करते हैं।

(3) पी. एच.: मिट्टी का सामान्य पी. एच. मान 6.5 से 7.5 के मध्य होता है यदि यही मान 6.5 से कम हो तो इसे अम्लीय तथा 7.5 से अधिक हो तो इसे लवणीय या क्षारीयता की गणना में रखते हैं। मिट्टी की अम्लता की दशा में बुझा हुआ चूना तथा क्षारीयता में जिस्सम का प्रयोग मृदा जाँच के आधार पर ही किया जाता है।

(4) विद्युतचालकता (इलेक्ट्रीकल कण्डकीविटी):

दूसरा महत्वपूर्ण परिमाप विद्युत चालकता है जो मिट्टी में उपलब्ध घुलनशील नमकीन लवणों विशेषकर कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सोडियम की मात्रा को दर्शाता है। यह मान 0.4 डेसी साइमन प्रति मीटर अधिकांश पॉलीहाउस फसलों के लिए इष्टतम है।

(5) प्रमुख पोषक तत्व: यह फसल को अधिक मात्रा में चाहिए। नत्रजन, पोटैशियम तथा फास्फोरस मुख्य पोषक तत्व हैं जो फसल की बढ़ोतरी, स्वास्थ्य, पैदावार तथा उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी या प्रचुरता फसल की गुणवत्ता तथा पैदावार पर हानिकारक प्रभाव डालती है। कमी के साथ—साथ किसी पोषक तत्व की मिट्टी में प्रचुरता भी हानिकारक होती है। जैसे कि यदि मिट्टी में फॉस्फोरस की मात्रा आवश्यकता से अधिक है तो वह पौधों द्वारा पोटैशियम के अवशोषण को प्रभावित करता है। इसलिए मिट्टी की जाँच के बाद विशेषज्ञ द्वारा अनुमोदित मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए।

(6) सूक्ष्म पोषक तत्व: संरक्षित खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत महत्व है। यह मिट्टी में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन पौधों के लिये आवश्यकता के दृष्टिकोण से सभी पोषक तत्व बराबर महत्व रखते हैं। बोरोन, जिंक, कॉपर, लोहा, मैग्नीज़ एवं मॉलिबडेनम इत्यादि महत्वपूर्ण

सूक्ष्म पोषक तत्त्व हैं जिनकी आवश्यकतानुसार पूर्ति अच्छी फसल के लिए अत्यन्त लाभदायक होती है। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की पूर्ति फसल की आवश्यकतानुसार ही विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार की जाती है। इनकी पूर्ति पर्णीय छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं।



चित्र (7) मिट्टी की नमी, पीएच और विकिरणप्रकाश मापने का उपकरण



चित्र (8) बहुधा प्रयुक्त होने वाले कवकनाशी तथा सूक्ष्म पोषकतत्व रसायन

(7) मिट्टी का बदलना एवं उपचार: उपर्युक्त उपायों को अपनाने के पश्चात् भी यदि मृदा

स्वास्थ्य में सुधार न हो तो मिट्टी को बदलना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए ऐसी जगह से मिट्टी लाएं जहाँ खेती न की गई हो। इसके लिए 1000 वर्ग. मी. पॉलीहाउस में 30 ट्रक मिट्टी लगती है। मिट्टी के साथ यदि हो सके तो 2 टन भूसा, 3 ट्रक सड़ी गली गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी बेहतर हो जाती है। यदि बाहर अच्छी मिट्टी न मिले तो पॉलीहाउस की ही मिट्टी; 30 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे पलट दें। इसके पश्चात् 70 लीटर फार्मलीन 700 लीटर पानी में मिलाकर मिट्टी का उपचार करें ताकि उसमें कोई मृदा जनित रोग या कीटाणु न रह जाएं। तत्पश्चात् मिट्टी को पारदर्शी पॉलीथीन से 6–7 दिनों के लिए ढकना चाहिए। पॉलीथीन हटाने के बाद 100 लीटर/वर्ग मीटर पानी से मिट्टी को भिगोने से मिट्टी से फॉर्मलीन की सफाई हो जाती है।

निरंतर पॉलीहाउस में फसल उगाने के पश्चात् भी मिट्टी में हानिकारक रोगजनक जीव, नेमाटोड, खरपतवार के बीज हो सकते हैं इसलिए इसे गर्मी उपचार द्वारा कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कवकनाशी और कीटनाशकों द्वारा उपचार—समाधान बीमारी में प्राप्त किया जा सकता है।

(8) अन्य सावधानियां: जैसे कंटेनर, चाकू, बैंच, कार्य क्षेत्र आदि को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीहाउस में ले जाने से पहले बीज या रोपण सामग्री को कीटाणुरहित करें।